



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

No. 688]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 934(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध उप-प्रधानाचार्य के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली में प्रोफेसर-सह-उप-प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (प्रोफेसर-सह-उप-प्रधानाचार्य)
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .—**वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन का अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रोफेसर-सह-उप-प्रधानाचार्य	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिववर्ग	वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रु.) में स्तर - 12	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा यह प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा भी सम्मिलित है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे सहयुक्त प्रोफेसर जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और नर्सिंग में स्नातकोत्तर में नर्सिंग और प्रशासन का प्रशिक्षण लिया हो</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिनोंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कानूनी या स्वशासी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल केडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल केडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो : और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हैं;

आवश्यक

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) जो राज्य नर्सिंग में नर्स या दाई के रूप में रजिस्टर्ड हो; और

अनुभव

(i) एमएससी (नर्सिंग) के साथ 15 वर्ष का अनुभव जिसमें 10 वर्ष का शिक्षण का अनुभव

(ii) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या केंद्रीय सरकार में नर्सिंग में प्रशासन का 3 वर्ष का अनुभव :

बांछनीय

नर्सिंग में एम.फिल/पीएचडी

टिप्पण -1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है की अविध, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय समिति: (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. सदस्य या अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष
2. नर्सिंग प्रभाग से संबंधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य
3. निदेशक (नर्सिंग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य
4. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य

[फा. सं. ए-11011/09/2000-एन/भाग-2]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

G.S.R. 934(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the College of Nursing, New Delhi (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relates to the post of Vice-Principal, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor-cum-Vice-Principal in the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These Rules may be called the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (Professor- cum- Vice-Principal) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix:—The number of the said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.:—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification:—No person,

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Professor – cum-Vice-Principal	1*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial,	Level-12 in the pay matrix (Rs.78,800-2,09,200)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion</p> <p>Associate Professor in Level-11 of the Pay Matrix with five years regular service in the grade and have undergone training in Nursing Education and Administration in Post-graduation in Nursing.</p> <p>Note- : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including short term contract)</p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous organisations:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With five years service in Level-11 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience as under:</p> <p>Essential:-</p> <p>I) Master's degree in Nursing from a recognised university.</p> <p>II) Registered as a Nurse and Mid-wife with a State Nursing Council.</p> <p>Experience:-</p> <p>(I) Twelve years experience with M.Sc(N)out of which ten years should be teaching experience with minimum five years in collegiate programme.</p> <p>(II) Three years of experience in administration in Nursing in State or Union Territories or Central Government</p> <p>Desirable:</p> <p>M.Phil/Ph.D in Nursing.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation(Including short term contract). Similarly the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation(Including short term contract) including period of deputation(Including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation(Including short term contract) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Group 'A' Departmental Committee for considering Promotion consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member or Chairman, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary concerned with Nursing Division, Ministry of Health and Family Welfare - Member 3. Director(Nursing) Ministry of Health and Family Welfare - Member 4. Nursing Advisor, Ministry of Health and Family Welfare - Member 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including short term contract)</p>

[No. A-11011/9/2000-N(Part-2)]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Asstt, Director General (Nursing)